



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248253
CG-DL-E-23082023-248253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3571]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945

No. 3571]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2023

का.आ. 3731(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में लोहा तालूके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के कि.मी. 114.600 से कि.मी. 187.800 तक (चाकुर सेलोहा खंड) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमिका अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कंधार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसरदेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यातो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांकन और अन्य ब्यौरे सक्षमप्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियोंद्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के कि.मी.114.600 से कि.मी.187.800 तक (चाकुर से लोहा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नांदेड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लोह					
गांव का नाम: अंबेसांगवी					
1	36	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: कारेगांव					
2	342	निजी	कृषि	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
3	342	निजी	कृषि	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
गांव का नाम: पाडी					
4	289	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
5	475	निजी	कृषि	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
गांव का नाम: पोलेवाडी					
6	435	निजी	कृषि	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
गांव का नाम: लांडगेवाडी					
7	11	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
8	16	निजी	कृषि	0.0096 (हेक्टेयर)	0.0096
9	18/1	निजी	कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: मलाकोली					
10	123/1	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: खेडकरवाडी					
11	35/1	निजी	कृषि	0.0119 (हेक्टेयर)	0.0119
गांव का नाम: लोहा					
12	145/1	निजी	कृषि	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
Total					0.1273

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2023

S.O. 3731(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km. 114.600 to Km. 187.800 (Chakur to Loha Section) in Taluka Loha in the District of Nanded in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Competent Authority, Sub-Divisional & Land Acquisition Officer, Kandhar writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 114.600 Km. 187.800 (Chakur to Loha Section) of National Highway - 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Loha					
Village: Ambesangvi					
1	36	Private	Agricultural	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Karegaon					
2	342	Private	Agricultural	0.0008 (Hectare)	0.0008
3	342	Private	Agricultural	0.0008 (Hectare)	0.0008
Village: Pardi					
4	289	Private	Agricultural	0.01 (Hectare)	0.01
5	475	Private	Agricultural	0.0064 (Hectare)	0.0064
Village: Polewadi					
6	435	Private	Agricultural	0.0075 (Hectare)	0.0075
Village: Landgewadi					
7	11	Private	Agricultural	0.02 (Hectare)	0.02
8	16	Private	Agricultural	0.0096 (Hectare)	0.0096
9	18/1	Private	Agricultural	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Malakoli					
10	123/1	Private	Agricultural	0.03 (Hectare)	0.03

Village: Khedkarwadi					
11	35/1	Private	Agricultural	0.0119 (Hectare)	0.0119
Village: Loha					
12	145/1	Private	Agricultural	0.0003 (Hectare)	0.0003
Total					0.1273

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.